



Way of Successful Life...



पर्वत

जैसी

ताकत

नीम एलोवेरा तुलसी मोरिंगा साबुन



मुख्य घटक : सोप नूडल्स, पानी, ग्लिसरीन, डीसोडियम EDTA, एलोवेरा, नीम एक्सट्रैक्ट, तुलसी तेल, सुगंध, BHT

- एलोवेरा सोप में एंटी-ओक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है।
- यह एक बेस्ट और नेचरल एंटीएजिंग प्रोडक्ट है।
- एलोवेरा त्वचा को पोषण देने का काम करता है।
- साबुन के रेग्युलर इस्तेमाल से त्वचा के अनचाहे दाग-धब्बे दूर हो जाते हैं।
- रूप निखारने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है।

मुख्य घटक : सोप नूडल्स, पानी, ग्लिसरीन, डीसोडियम EDTA, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, सुगंध, BHT

हल्दी चंदन सोप

- हल्दी चंदन साबुन चेहरे के ओइली स्किन को कम करने में मदद करता है।
- त्वचा के पिंपल्स कम करके उम्र बढ़ने के संकेतों को रोकने में लाभदायक है।
- त्वचा को प्राकृतिक रूप से गोरा करने में हल्दी चंदन साबुन मदद करता है।
- हल्दी चंदन साबुन शरीर तथा चेहरे को बैक्टेरिया से बचाता है और स्किन को ताजगी प्रदान करता है।



मुल्तानी मिट्टी और चंदन साबुन

मुख्य घटक : सोप नूडल्स, पानी, ग्लिसरीन, डीसोडियम EDTA, मुल्तानी मिट्टी, चंदन, सुगंध, BHT.



- यह त्वचा के गहरे छिद्रों से अशुद्धियों और गंदगी को प्रभावी ढंग से हटाता है, जिससे त्वचा साफ और तरोताजा दिखती है।
- मुल्तानी और अक्सर इसमें मिलाए जाने वाले चंदन जैसे तत्व त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं और नमीयुक्त रखते हैं।
- यह धूप से जली हुई और डैन्ड त्वचा में विशेष परिणाम देता है, टैन लाईनों को हल्का करता है।
- यह त्वचा को पोषण देता है और इसे एलर्जी या किसी अन्य संक्रमण से दूर रखने में भी मदद कर सकता है।

मुख्य घटक : ट्राइक्लोसन, सैलिसिलिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, टी ट्री ओईल, एलांटेइन, विटामिन ई।

रॉक ब्यूटी एंटी पिम्पल केसर शोप

- यह पिंपल्स और दाग-धब्बों को कम करने की क्षमता रखता है।
- जलन और यूवी किरणों से बचाने में सहायक।
- शुष्क त्वचा को कम करने और नमी प्रदान करने में सहायक।
- चमकदार लुक के लिए मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में सहायक।
- प्राकृतिक डिओडोरेंट गुण प्रदान करने में सहायक।
- सभी प्रकार की त्वचा के लिए गोरी और चमकदार त्वचा को बढ़ावा देने में सहायक।



दूधपेस्ट

मुख्य घटक : खेर, अकरकारा, दालचीनी, माजुफल, काली मिर्च, बबुल, सोंठ, आंवला, बहेडा, हरडे, वैविंदंगा, नीम तेल, लोंग तेल, कपूर तेल, नोनी।



- दांतों के धब्बे को दूर करता है।
- मुंह और सांसों की दुर्गंध दूर करता है।
- आपके दांतों को सफेद बनाए रखता है।
- दांतों को भीतर से मजबूत बनाए रखता है।
- त्वचा के जलन में प्रयोग चेहरे के मुंहासे को दूर करता है।



एलोवेरा बॉडी लोशन

मुख्य घटक : मिनरल ओईल, स्टीयरिक एसिड, ग्लाइसेरिल मोनो स्टीरेट, बीज वैक्स, सेटाइल अल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रोपीलीन ग्लाइकॉल, आइसोप्रोपाइल मिस्टेट, ओलिव ओईल, वीटजर्म ओईल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, डाइमेथिकोन, बोरेक्स, बटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी टोल्यून (BHT), सोडियम मिथाइल पैराबेन, सोडियम प्रोपाइल पैराबेन, कॉस्टिक पोटाश, खुशबू, डीएम वॉटर ।

- त्वचा को हाइड्रेट करता है ।
- त्वचा को स्वस्थ रखता है ।
- त्वचा को मुलायम बनाता है ।
- उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करता है ।

हर्बल शैम्पू

मुख्य घटक : आंवला, मंदुकपर्णी, नीम, महेंदी, अरीख, खांडिया, भृंगराज, तुलसी, चिकाई, एलोवेरा ।

- बालों को ड्रीपकंडीशनिंग करता है ।
- नए बाल उगाने में मददगार होता है ।
- डैंड्रफ को दूर करता है ।
- बालों की चमक बढ़ाता है ।



क्रैक क्रीम



मुख्य घटक : कोकम बटर, मोम, अरंडी तेल, एलोवेरा अर्क, मंजिष्ठा अर्क, पाषाणभेद अर्क, दारुहल्दी अर्क, खुशबू, मिक्रोसिस्टालिने वैक्स, पैराफिन वैक्स, मिनरल ओईल ।

- क्रैक क्रीम हाथों और पैरों की त्वचा को मोइस्चराइज करती है ।
- क्रैक क्रीम एडी की दरारे और चोटों को ठीक करने में मदद करती है ।
- सूजन और एडी के दर्द को कम करता है ।

डोज : सुबह और शाम हलके हाथों से मालिश करें ।

हर्बल फेस वॉश

मुख्य घटक : हरिद्रा, नागकेसर, मेथी, हल्दी, चंदन, नीम, तुलसी, रक्तचंदन ।

- त्वचा को पोषण देता है और चमकदार बनाता है ।
- स्कीन के अंदर ग्लो आता है ।
- चहरे पे निखार आता है और चेहरा सुंदर दिखता है ।



हर्बल हेयर ऑयल



मुख्य घटक : मुलेठी, शिकाकाई, बाही, भृंगराज, चाय पत्ती, अश्वगंधा, अटमांसी, अनंतमूल, पलाश, नीम, गुडहल, मेथी, अखरोट, तिल तेल, एंड तेल, तीस्सी का तेल, नारियल तेल ।

- बाल जड़ना बंध करे आपके बालों को पोषण देता है ।
- बालों को काला घना और मुलायम बनाता है ।
- आपका बाल झड़ना बंध हो जाता है ।
- आर्युवेदिक जड़ीबुटियों से बनाया हेर ओइल है ।

हर्बल फेशियल किट

मुख्य घटक : गुडहल, एलोवेरा, गुलाब जल, आँवला, ककडी, अखरोट, तुलसी, नीम, नारंगी, पपीता, कीशमीश, हल्दी, मुलेठी, मजीठ, बादाम तेल, वीटजमें तेल, एरंड तेल ।

- स्कीन टोन को स्मूथ और नरम करती है।
- त्वचा को पोषण देती है और चमकदार बनाती है।
- स्कीन के अंदर तक जाती है। बा है ।।।
- स्कीन को ग्लो करती और बढीया सुंदरता देती है।



सेनेटरी पैड



- ये पैड इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन नहीं होता है।
- सेवन लेयर पैड आता है।
- जो लंबे समय तक चलता है।
- त्वचा के लिए कोमल रहता है।
- सेनेटरी पैड का इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है।

एलोवेरा ब्युटी जेल

मुख्य घटक : एलोवेरा, नीम, तुलसी, ककडी, गुलाब जल, ग्रीन टी ।

- एलोवेरा ब्युटी जेल आप बालो और चेहरे दोनों पे युज कर सकते है, त्वचा की जलन, मुँहासे और शुष्क त्वचा को कम करने में मदद करता है।
- आपकी त्वचा और बालो को कोमल और चमकदार बनाने में मदद करता है।



मोइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम



मुख्य घटक : एलोवेरा, ओलीव ओईल, बादाम तेल, एरंड तेल

- आपकी त्वचा को कोमल, मुलायम बनाता है।
- झुर्रियां कम करता है।
- रूखी और तैलीय त्वचा से छुटकारा मिलता है।
- त्वचा को बाहरी वातावरण से खराब होने से बचाता है।
- त्वचा पर ग्लो और निखार लाता है।

लीप बाम

मुख्य घटक : नारियल तेल, वीटजमें तेल, बादाम तेल, तिल तेल ।

- लीप बाम लगाने से होठों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाया जा सकता है।
- लीप बाम लगाने से होठों की झुर्रियां कम होती है।
- लीप बाम लगाने से होठों का कालापन कम होता है।
- लीप बाम लगाने से होठों को मुलायम बनाया जा सकता है।





रॉक फेस पैक

मुख्य घटक : नारंगी, पपीता, नींबू, एलोवेरा, मुलेठी, मजीठ, नीम, ककडी, गुलाब जल, मुलतानी मिट्टी ।

- फेस पैक से चेहरे पे ग्लो आता है तेली और सूखी त्वचा मुलायम बनाता है।
- त्वचा को मोइस्चराइज करता है।
- मुंहासे और ब्लेकहेड्स को कंट्रोल करता है।

हर्बल डी.टेन स्क्रब

मुख्य घटक : गुडहल, एलोवेरा, तुलसी, हल्दी, पपीता, ककडी, गुलाब जल, ग्रीन टी, मुलेठी, कीशमीश, अश्वगंधा, कोफी, अखरोट, नींबू, पीपरमींट ।

- डी.टेन स्क्रब त्वचा के लिए क्लीनर का काम करता है।
- स्क्रब स्किन को गहराई से साफ करता है।
- स्क्रब से त्वचा में मौजूद गंदगी साफ हो जाती है।
- इससे त्वचा फ्रेश और चमकदार दिखती है।



हेयर स्पा क्रीम

मुख्य घटक : शिकाकाई, पलाश, गुडहल, भृंगराज, अनंतमूल, ब्राह्मी, जटामांसी, ग्रीन टी, अश्वगंधा, नीम, एरंड तेल, बादाम तेल, वीटजमें तेल, शहद ।

- हेयर स्पा क्रीम से बालों को डीप कंडीशनिंग मिलती है।
- बालों से डेड्रफ की समस्या दूर होती है।
- बालों को घना और मजबूत बनाता है।
- बालों में चमक आती है।
- हेयर फॉल की समस्या दूर होती है।
- बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद मिलती है।



रॉक फंगल क्रीम और टेबलेट



मुख्य घटक : हल्दी, सहाजना, चोकर मुड, लहसून, कपूर, सिंदूर, धतुरा, नीम, बकुची, केस्टर ओईल ।

- दाद-खाज खूजली के लिए ।

रॉक स्कीन केर क्रीम



मुख्य घटक : नीम, एलोवेरा, हल्दी, केस्टर ओईल, बकुची तेल, ज्योतिष्मथी तेल, ओलीव ओईल, बादाम तेल, कपूर ।

- काले दाग, सफेद दाग, पिग्मेंटेशन के दाग और ऑपरेशन के दाग को दूर करता है ।

रॉक नोवा

मुख्य घटक : मेंगो स्टीज, सीबकथोन, गेनोडर्मा, माकारुट, जीनसींग, ब्लेक करैट, सफेद मुशली, एल्डर बेरी, ब्लू बेरी, अश्वगंधा, गोखरू, चिकोवायलोचा, मंजिस्त्र, मोरिंगा, आँवला, केवोकाडो, स्पूर्लिना, पुनर्नवा ।

शुगर बीपी थायरॉइड कैंसर सोरायसिस सर्वाइकल माइग्रेन। कोलेस्ट्रॉल लुकोरिया एनीमिया पथरी जोड़ो का दर्द अनिद्रा बवासीर हार्ट प्रॉब्लम बालों समस्या नस की ब्लॉकेज अस्थमा गठिया एलजी

रॉक नोवा 600 तरह की बीमारियों से आपको बचाता है।



- आंतों की सफाई करता है।
- नया खून बनाता है।
- इन्फेक्शन से बचाता है।
- जोड़ो की समस्या से बचाता है।
- डायबिटीज समस्या से बचाता है।
- स्किन की समस्या से बचाता है।
- नसों को ब्लॉक होने से बचाता है।
- बालों की समस्या से बचाता है।
- महिलाएं को होने वाली सभी समस्याएं से बचाता है।
- पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करता है।
- नया सेल्स का निर्माण करता है।
- शरीर को एक्टिव रखता है।
- हार्ट की समस्या से बचाता है।
- किडनी की समस्या से बचाता है।
- वजन को कंट्रोल रखता है।
- सेक्स की समस्या को दूर करता है।



डोज : सुबह और शाम खाने से पहले । कैप्सूल गरम पानी के साथ ले।

रॉक डिटोक्स

मुख्य घटक : हरिद्रा, गुडुची, रसना लेप, सिरीस स्टेम, अनांतमुल, उनीमल्की, कमल फ्लावर, कुमारी लेप, निर्गुडी लेप, भृंगराज, नीम, बबुल, दारुहल्दी, अशोक स्टेम, मंजिस्त्र, शंखपुष्पी, पुनर्नवा, तुलसी, त्रीकाटु, लोधरा, अश्वगंधा, द्राक्षा, सेवल, दादीम ।



- शरीर में मौजूद दूषित पदार्थ बहार निकाल देता है।
- त्वचा चमकदार बनाता है।
- शरीर में सूजन नहीं होती।
- मेटाबोलिज्म तेज हाता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है।
- कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है।
- किडनी, लिवर और पेट की बीमारियों से बचाव करता है।
- रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
- मानसिक तनाव और दूसरे विकार दूर भागते हैं।
- नई ऊर्जा का संचार होता है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले ।

कैप्सूल गरम पानी के साथ ले।



कफ सिरप

मुख्य घटक : तुलसी, वास्का, अतातुंडा, सोंठ, तज, हल्दी, अजवाईन, पीपर, कपूर, पुदीना ।

- सूखी एंवम गीली खांसी में उपयोगी है।
- कफ ढीला करके उसे बाहर निकालने में मदद करता है।
- गले की जलन को कम करता है और गले को कोमल बनाता है।

डोज : सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच गून गूने पानी के साथ ले।



रॉक एंटी ऐलर्जी

मुख्य घटक : अश्वगंधा, गिलोई, कुलनजन ।

- बार बार कफ और खांसी आना गले में दर्द होना।
- नाक-कान, गले में खुजली होना मुंह, होठपे सुजन आना और चेहरा लाल होना।
- गले में बहुत अधिक खरांश, नाक बहना, नाक बंद हो जाना और छींके आना।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले एक केप्सुल ले।



रॉक प्लेट टेबलेट

मुख्य घटक : पपैया एक्स्ट्रेक्ट, गोडमिल्क पाउडर, टीनोस्पोरा एक्स्ट्रेक्ट ।

- ये टेबलेट काउंट को बढ़ती है।
- मलेरिया, डेंगू, बुखार के उपचार के लिए किया जाता है।
- लीवर के कार्य में सुधार करते हैं और इसे संक्रमण से बचाते हैं।
- बुखार में शरीर के तापमान को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
- लीवर के सामान्य कार्य की रक्षा करने में फायदेमंद रहेता है।
- गर्भवती महिला को ना दे।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले दो टेबलेट गरम पानी के साथ ले।



रॉक न्यूरोगॉड कैप्सूल

मुख्य घटक : महावत विद्वासन, समीर पनाग रस, एकांगवीर रस, सुट शेखर रस, फुराईसीनी अजवाईन, काजीली ।

- माईग्रेन को ठीक करता है।
- याददाश्त और एकाग्रता में सुधार करता है।
- मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है।
- नींद की समस्याओं को दूर करता है।
- शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
- नस दबने पर आप ले सकते हैं, मांसपेशियों की कमजोरी और
- थकान को दूर करता है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले एक केप्सुल ले।



मल्टी विटामिन चॉकलेट पाउडर



मुख्य घटक : मोरिंगा लीफ, वीट ग्रास, बार्ली ग्रास, आँवला, मशरूम, बीटरूट, पालक, 21 नेचरल एक्सट्रैक्ट, कोकोआ, गुड पाउडर ।

- विटामिन - ए, बी कोम्प्लेक्स, सी, डी, इ, के की पूर्ति करता है ।
- जरूरी सभी मिनरल्स, कैल्सियम, मैग्नेशियम, आयर्न की पूर्ति करता है ।
- प्रोटीन की मात्रा बढ़ा के एनर्जी स्ट्रेंथ बोडी ग्रोथ करता है ।
- वजन को बढ़ाता है।
- हाइट को बढ़ाता है।
- याद शक्ति को बढ़ाता है।
- नई ऊर्जा पैदा करता है।
- सिकल सेल और एनीमिया को ठीक करता है।

डोज : सुबह और शाम एक चम्मच पावडर दूध के साथ ले।

मुख्य घटक : आँवला, सतावरी, कचनार, दशमुल, कुमारी, अशोक, अश्वगंधा, पुनर्नवा, अर्जुन, वीट ग्रास, गुड पाउडर, कोकोआ पाउडर, मोरिंगा लीफ, 51 एक्सट्रैक्ट मीलेट्स, नट्स, हर्ब्स, ग्रीन सुपर फुड ।

- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
- महिलाओं में पीरियड्स संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है और हार्मोनल असंतुलन को नियंत्रित करता है।
- एनीमिया और हड्डी रोगों को नियंत्रित करता है।
- यह त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है।
- इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं।
- महिलाओं को थकान, बेचौनी, बोरियत, आलस्य जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है।

डोज : सुबह और शाम 1-1 चम्मच दूध या पानी के साथ।

भोजन से 1 घंटा पहले या भोजन के 2 घंटे बाद । अच्छे परिणाम के लिए 2-2 बड़े चम्मच।

रॉक नारी शक्ति



रॉक मेवा प्रश



मुख्य घटक : आँवला, अश्वगंधा, बाह्मी, पिपली, केसर और बहुत सारी जड़ीबुटियाँ ।

- रोगप्रतिकारक शक्ति को बढ़ाकर बिमारीयों से लड़ने में मदद करता है ।
- ताकत और उर्जा मिलती है, खाँसी और कफ को दूर करता है ।
- जो लोग बार-बार बिमार पड़ जाते हों और जिनको सांस लेने में तकलीफ, देर तक काम न कर पाते हों उनके लिए मुफिद है ।

डोज : बच्चों को १ चम्मच दिन में दो बार और वयस्क २ चम्मच दिन में दो बार।

ड्राई फ्रूट प्रोटीन पाउडर



मुख्य घटक : बादाम, काजू, व्हे मिल्क, सोया प्रोटीन, ट्रेस एलीमेन्ट, कैल्सियम, मिनरल्स, विटामिन्स, DHA.

- पाचन सुधारता है, हड्डियों को मजबूत करता है।
- त्वचा और बालों को मजबूत बनाता है।
- याददाश्त बढ़ाता है और हृदय के लिये फायदेमंद होता है।
- ड्राई फ्रूट्स बिटामिन, खनीज फाईबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर की पोषण संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करता है।
- रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।

डोज : सुबह शाम 1 चम्मच गरम दूध के साथ ले।

रॉक फिट टेबलेट और पाउडर

मुख्य घटक : कैरालुमा, गार्सिनिया कैम्बोगिया, कैमेलिया, साईनैसिस, कोलियस स्कुटेलेरियोईड्स, फिलैथस एम्बिलका, पुनिका ग्रैनेटम, कॉमिफोरा मुकुल, पॉसिनिस्टालिया योहिम्बे, स्ट्रूस लेमन, एलियम सैंटिवम ।

- शरीर की चर्बी घटाये।
- बढ़ा हुआ पेट घटाये कोई आडअसर नहीं।
- पाचन शक्ति बढ़ाये कोई साईड इफेक्ट नहीं।
- दुबारा मोटापा से मुक्ति।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले एक चमच पाउडर गरम पानी के साथ ले।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले एक टेबलेट गरम पानी के साथ ले।



ग्रीन टी



मुख्य घटक : ग्रीन टी एक्स्ट्रेक्ट, ग्रेप सीड एक्स्ट्रेक्ट, तज एक्स्ट्रेक्ट, तुलसी एक्स्ट्रेक्ट, लींबु एक्स्ट्रेक्ट, अदरक एक्स्ट्रेक्ट, काली मिर्च, काला नमक ।

- वजन घटाने में मदद करता है।
- इसुलिन के स्त्राव को बढ़ाने में सहायक करता है।
- तनाव हार्मोन के स्तर को सामान्य करता है।
- वायरल फेफड़ों के संक्रमण को नियंत्रित करता है।
- श्वसन संबंधी समस्याओं और फेफड़ों की सफाई में सहायक।
- ऊर्जा स्तर, मानसिक तनाव और शारीरिक गतिविधि के लिए।
- पाचन सुधार और स्वस्थ मल त्याग में फायदा।

डोज : सुबह और शाम एक टेबलेट गरम पानी में डाल के ग्रीन टी तैयार होने पर पीले।

रॉक अस्थमा केर

मुख्य घटक : दसमूल, हरडे, काकारसींग, पीपली, पुष्कर मुल, सोमलता, तुलसी, कपुर, कचरी ।

- सुखी और लिली खासी और कफ ठीक करता है।
- श्वास चटना फेफड़ों में इस्ट को कलीन करता है।
- कफ निकाल कर आपके दर्द को जल्दी ठीक कर देगा

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले एक कैप्सूल ले।




रॉक इम्युनिटी

मुख्य घटक : जिनसैंग एक्स्ट्रेक्ट, गिलोय एक्स्ट्रेक्ट, अश्वगंधा एक्स्ट्रेक्ट, शिलाजित एक्स्ट्रेक्ट, शतावरी एक्स्ट्रेक्ट ।

- थकान लगना वीकनेस आ जाना
- बोडी में दर्द होना ऐनर्जी कम हो जाना
- चक्कर आना फिटनेस और स्टेनिमा मजबूत करता है।
- ये प्रोडक्ट डायबिटीज वाले को दे सकते हैं।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले एक कैप्सूल ले।





रॉक करक्यूम

मुख्य घटक : करक्यूमिन एक्स्ट्रेक्ट, पीपेरीट एक्स्ट्रेक्ट ।

- कफ को बहार निकालता है ब्लड को शुद्ध करता है
- हड्डियों को मजबूत करता है अल्सर और केन्सर से बचाता है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले एक केप्सुल ले।

रॉक आर्यन

मुख्य घटक : तपायादीलो, लवायस्लो, धात्रीलो, लो भस्म, मंदुर भस्म, परावल पीस्ट्री।

- विटामिन B12 और विटामिन C विटामिन D और हीमोग्लोबिन में फायदा करता है।
- ब्लड को शुद्ध करता है।
- फालैटेनिया में फायदा करता है।
- केन्सर से बचाता है।
- किडनी डायलिसिस वाले ले सकते हैं।
- सिंकल सेल और एनीमिया को सही करता है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 टेबलेट ले । गंभीर बीमारी में 2 केप्सुल ले।



रॉक लिव सिरप और टेबलेट



मुख्य घटक : सरकोंका, चिरायता, लिंडीपीपर, अर्जुन, कासुंद्रा, गोक्सुर, अतिवीश, भृंगराज, भुआमला, पुननर्वा, गुडूची, दारुहल्दी, आँवला, वीदांग, हरितकी, पित्तपापडा ।

- रक्तको फिल्टर करता है।
- अमीनो एसिड को नियंत्रित करता है।
- रक्तको शुद्ध करता है।
- फेटी लीवर और लीवर पर सुजन आने में ले सकते हैं।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 टेबलेट ले।

रॉक थाइरो केर

मुख्य घटक : कचनार छाल, गोखरु, सोंठ, गुगल, रसना पात्रा, पुनर्नवा, त्रीकाटु, दारुहरिंदा, शिलाजीत, अलसी बीज, जटामसी, लाजलु, अश्वगंधा, वरुण छाल, मालदंगनि, मंदुल पारडी, मंदुर भस्म, कपारदिका भस्म, पार्वल भस्म ।

- T3 बोडी सूक्ति हो
- T4 गले में गांठहोती है।
- TSH जिसको बोडी फूलती हो
- ये तीन में आप दे सकते हैं प्रोस्टेट यानी सारनगांठमें दे सकते हैं।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 केप्सुल ले।



रॉक हार्ट केर

मुख्य घटक : अर्जुन, लहसुन, विलायती इमली, गुग्गुल, गिलोय, पॉलिकोसानॉल ।

- हार्टबीट को कंट्रोल करता है।
- हार्टबीट को मजबूत करता है।
- लोह बीपी और हाई बीपी को कंट्रोल करता है।
- हार्ट अटैक वाले को दे सकते हैं।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 केप्सूल ले।



रॉक ओमेगा

मुख्य घटक : फलैक सीड, फलैक सीड ओईल, लीनोलेनिक एसिड ओमेगा-3, लीनोलेनिक एसिड ओमेगा-6, ओलेक एसिड ओमेगा-9 ।

- आंखों के लिए फायदेमंद दिमाग को तेज करता है।
- कोलस्ट्रॉल को खतम करता है, चिंता को दूर करता है।
- गर्भावस्था में बच्चे मस्तिष्क निर्माण में सहायक।
- आयु संबंधित धब्बेदार अधःपतन शुष्क नेत्र रोग और गठिया के लिए उपयोग किया जाता है।

डोज : सुबह और शाम 1 सॉफ्ट जेल पानी के साथ ले।



कोलेस्ट्रॉल टेबलेट

मुख्य घटक : गार्लिक एक्स्ट्रेक्ट (एलासीन)

- हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होता है।
- गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल।
- खून में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने के कारण रक्त वाहिकाओं में रुकावट आ सकती है। जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कोरोनरी हार्ट डिजीस जैसी कई गंभीर बीमारियों में काम करता है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 टेबलेट ले।



रॉक सीबकथोन

मुख्य घटक : सीबकथोन ओईल ।

- यह शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट, फैटी एसिड और ओमेगा 3, 6, 9 और दुर्लभ ओमेगा - 7 से भरपूर है। जिसमें विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है।
- पामटोलेइक एसिड, अन्य फैटी एसिड के साथ, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड प्रेशर को कम करने और हेल्थ में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह कैंसर और गांठ को दूर करने में भी मददगार है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले सॉफ्ट जेल केप्सूल ले।



मुख्य घटक : सेफोन, गोखरू, अश्वगंधा, सीबकथोन, सेनोग्रीक, सफेद मुस्ली ।

- पौरुष शक्ति, स्टेमना क्षमता और दिमागी शक्ति को बढ़ाता है।
- टेस्टोस्टेरोन (हार्मोन) बढ़ाता है।
- दिल, दिमाग और इंद्रियों के स्वास्थ्य में सुधार करता है।
- मूड, प्रतिरक्षा और स्मृति स्वास्थ्य का समर्थन करता है।
- भूख, नींद, थकान, चिंता और तनाव से राहत मिलती है।
- स्वस्थ मांसपेशियाँ बनाता है।

डोज : सुबह-शाम 1-1 कैप्सूल भोजन के बाद दूध के साथ।

मेन पावर कैप्सूल



रॉक स्टेम सेल पाउडर



मुख्य घटक : सेब स्टेम सेल, द्राक्षा स्टेम सेल, चीनी नोटवीड, आर्गन फ्रूट, अकाई बेरी, ब्लूबेरी ।

- चीरो और घाव को ठीक करने के मदद मिलती है।
- सूजन कम होती है।
- दर्द प्रबंधन में तेज, सुरक्षित स्थायी परिणाम मिलते हैं।
- ओर्थोपेडिक स्थितियों में दीर्घकालिक राहत मिलती है।
- डिमेंशिया, ऑटिज्म, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, सेरेबल पालसी जैसी बीमारियों का इलाज संभव है।
- ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, जैसे कैंसर के इलाज में किया जाता है।

डोज : सुबह और शाम 1 चमच पावडर गरम पानी के साथ ले।

नशा मुक्ति

मुख्य घटक : अश्वगंधा, बाही, टगर, मंडूकपर्णी, जौ, कुचला, तुलसी, पीपली, सोंठ, एला जटामांसी ।

- व्यसन छोड़ने के लिए।
- बीड़ी गुटखा तम्बाकू शराब छोड़ने के लिए।
- खूद को स्वस्थ और पावरफुल बनाये।
- इस पावडर को लेने से किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं होती है।
- ये पावडर नेचरल जड़ीबूटियों से बनाया गया है।

डोज : सुबह और शाम सब्जी में 1 चमच मीला के ले।



डायाबिटीज



मुख्य घटक : त्रिफला, वुडमार, दालचीनी, नीम, जामुन, मेथी, करेला, गिलोई, शिलाजीत, मोरिंगा, अर्जुन, हल्दी, तज ।

- हाथ और पैरों की सूजन को दूर करता है।
- वजन कम होना बंद हो जाता है।
- टेबलेट और इंजेक्शन लेना बंध हो जाते हैं।
- ब्लड प्रेसर को कंट्रोल रखता है।
- डायाबिटीज को कंट्रोल में रखता है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 2-2 टेबलेट ले।



कब्ज स्पेशल पाउडर और टेबलेट

मुख्य घटक : हल्दी, काला नमक, अजवाइन, अदरक, सोनामुखी, एरंडश्रीस्त हरडे ।

- कब्ज में सम्पूर्ण आराम देता है और आपके पेट की सभी समस्या को जड़मूल से खत्म कर देता है।

डोज : रात को सोने से पहले 1 चमच पावडर गरम पानी के साथ ले।

डोज : रात को सोने से पहले 2 टेबलेट ले।

रॉक सन्धिवा पाउडर और टेबलेट

मुख्य घटक :

- गठिया के साथ-साथ जोड़ों के दर्द, जोड़ों की सूजन और कंधे, कमर, घुटने, कुल्हे और कोहनी के जोड़ों में सूजन और कठोरता वाले लोगों के लिए उपयोगी है और जिन लोगों को चलने और सीढ़ियों का उपयोग करने में कठिनाई होती है उसमें सहायता प्रदान करता है।
- मांसपेशियों की थकान और तनाव से राहत मिलती है ।
- जोड़ों के दर्द को कम करता है ।
- सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द से बचाता है।
- जोड़ों के विकारों को जल्दी ठीक होने में मदद करता है।

डोज : १-१ कैप्सूल सुबह और शाम, भोजन से आधा घंटा पहले या भोजन के १ घंटा बाद।



ओर्थो ओईल

मुख्य घटक : महानारायण ओईल, निलगीरी ओईल, देवदारु ओईल, गणतपुरा ओईल, पुदीना, मेथी, कपूर, महाविश गर्भ ओईल, तज, अदरक, अजवाइन, लोंग, सरसो ओईल ।

- घुटने के दर्द, पीठदर्द, कोहनी के दर्द, कंधे के दर्द और अन्य जाडो की तकलीफों से राहत दिलाता है।
- यह मांसपेशियों में रक्तपरिसंचरण में सुधार करता है और इस प्रकार दर्द, सूजन, खिंचवा और जकडन से राहत दिलाता है।

डोज : सुबह और शाम हलके हाथ से मालीस करे।



केल्शियम टेबलेट

मुख्य घटक : मुक्तसुक्ति भस्म, गोडांति हर्तल भस्म, पर्सेनील, खातिका ।

- जोडो का दर्द और मांसपेशियों का दर्द।
- शरीर में जलन और पेट खराब होना।
- यह आपके पेट में एसिड की मात्रा को कम करता है।
- केल्शियम स्तर को बढ़ा देता है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 टेबलेट गरम पानी के साथ ले।



होर रॉक टेबलेट

मुख्य घटक : दारुहलदी, रसौत, नागरमोथ, बिलागर्भ, अडूलसा, चिरायता, शतावरी, गुडूची, नागकेसर, जीरा, एलची, रगत रोयडा, लोधर, तज, चौलाई, हिराबोर, हल्दी, जटामांसी, सुंठ, अश्वगंधा, पुनर्नवा, मजीठ, शंखपुष्पी, खजूर, सोवा, मायकल, धनिया, गुड ।

- मासिक समय से पहले या बाद आना।
- मासिक स्त्राव ज्यादा या कम आना।
- मासिक के समय दर्द होना या पेट दर्द।
- सफेद पानी आना एवं बच्चे न होना।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 टेबलेट गरम पानी के साथ ले।



रॉक वर्जिन कैप्सूल



मुख्य घटक : पुरनिया मीनीसीका, मंजाकणी, नीगेला सतीवा, परमेरीश, हमामेलीस, नोनी, एलोवेरा ।

- स्तन का साइज कंट्रोल करे।
- योनि की बदबू खत्म करे।
- यूरटाइन ब्लीडिंग कम करे।
- योनि से पानी आने की समस्या दूर करे।
- यूरटाइन सूजन कम करे।
- गर्भाशय के संक्रमण को दूर करे।
- योनि का सूखापन कम करे।
- योनि का ढीला पन दूर करे।


डोज : 1 कैप्सूल रात को सोते समय हलका गुनगुने पानी के साथ ले।

रॉक पीरियड टेबलेट

मुख्य घटक : बल्ड वोट एक्सट्रेक्ट, सोंठ, शिलाजीत, गोपसुरा, अश्वगंधा, सतावरी, लोधरा, मंजिस्व, जतामसी, अशोक छाल, विदारी कंड, यशत्री मंदु, केसर ।

- मासिक समय से पहले या बाद आना।
- मासिक स्त्राव ज्यादा या कम आना।
- मासिक के समय दर्द होना या पेट दर्द।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 टेबलेट गरम पानी के साथ ले।



रॉक वाइट डिस्चार्ज

- सफेद पानी के लिए।
- यह योनि को साफ रखता है।
- ज्यादा मात्रा में स्त्राव होना।



मुख्य घटक : मंजु, लोधरा, सुपारी, अशोका, रोल स्फाईड, गोंद, बबुल, गेरु, आमथली ।

- जलन, खुजली या दुर्गंध होना।
- ज्यादा काम करने पर भी बहुत थकान होना।
- ज्यादा समय तक गीला महसूस करना।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 टेबलेट गरम पानी के साथ ले।



रॉक युरी केर केप्सूल

मुख्य घटक : काली मिर्च, सोंठ, अश्वगंधा, पीपली, मुलहठी, रसना, सुरंजन, पुनर्नवा ।

- गठिया की रोकथाम और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।
- गठिया आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड के कारण होता है ।
- जोड़ों में दर्द होना पैरों और एडियों में तेज दर्दतलवों का लाल होना ज्यादा प्यास लगना पैर के अंगूठे में दर्द होना जोड़ों के ऊपरी त्वचा के रंग में बदलाव ।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 कैप्सूल गरम पानी के साथ ले ।

स्पिरुलिना एंड मोरिंगा टेबलेट


मुख्य घटक : स्पिरुलिना, मोरिंगा ।

- यह ब्लड प्रेशर को कम करता है।
- यह वजन को कंट्रोल करता है।
- यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
- यह लीवर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है।
- यह त्वचा को चमकदार बनाता है।
- यह गर्भावस्था में फायदेमंद होता है।
- यह आंखों की बीमारियों को दूर करता है।
- यह डिप्रेशन को दूर करने और दिमाग को पोषण देने में मदद करता है।
- यह केन्सर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करता है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 टेबलेट ले ।



रॉक पाईल्स केप्सूल



मुख्य घटक : बहेडा, वेखंड, नागकेसर, बकेन, दारुहल्दी, सुरन, अमलतास, आँवला, अदरक, काली मिर्च, लोंग, हर्ष, चितरक ।

- पाईल्स कैप्सूल दर्द खुजली जलन सुजन में सम्पूर्ण आराम देता है।
- पाईल्स समस्या को जड़मूल से खत्म कर देता है।
- बवासीर में गुदा से अंदर रक्तस्राव और कब्ज को ठीक करता है।

डोज : सुबह, दोपहर और शाम खाली पेट 2-2 केप्सूल ले और रात सोते समय 1 केप्सूल अलग से ले ।

पथरी के लिए टेबलेट, पाउडर और सिरप

मुख्य घटक : पुनर्नवा, वरुण, पसान भेद, प्लास, लजालु, अपामार्ग, सहदेवी, यवाक्षार, सोंठ, शिलाजीत, श्वेतपर पत्ती, वज्रुल याघुद भस्म ।

- पथरी में दर्द होता हो।
- बहुत दर्दनाक पीड़ा होती हो।
- आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के द्वारा पथरी के चूर चूर हो जाते हैं और पेशाब के द्वारा बहार निकल जाती है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले दो टेबलेट और पाउडर गरम पानी के साथ ले ।



मुख्य घटक : हरीताती, कोरीनदेर, कुर्मीन, फेनेल, पुदीना, गुलाब, सर्करा, अविपाकर ।

रॉकसीड पाउडर

- खट्टी और तीखी डकारें में फायदेमंद।
- पेट में बनी हुई गैस और एसिडिटी को ठीक करता है।
- सूजन को कम करता है। ● सीने में जलन कम हो जाती है।

डोज : गैस एसिडिटी होने पर खाने के बाद एक चम्मच पावडर नोरमल पानी के साथ ले।



वजन बढ़ाने का टेबलेट

मुख्य घटक : अश्वगंधा, शतावरी, गोखरु, आँवला, पीपली, विडंग, सफेद मुस्ली ।

- वजन बढ़ाने में मदद करता है।
- पाचन शक्ति को बढ़ाता है।
- हड्डियों को मजबूत करता है।
- रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है।

डोज : सुबह और शाम खाने से पहले 1 टेबलेट ले।



मुख्य घटक : गुलाब, त्रिफला, नीम, भृंगराज, तुलसी, पुनर्नवा, एलोवेरा, चकुस्या, नीर्मली, कपूर, फटकडी, पुदीना, सुहागा ।

- आंखों की थकान, आंखों की जलन, आंखों के तनाव का इलाज करता है।
- नीले विकिरण को अवशोषित करने में मदद करता है।
- ग्लूकोमा, आंखों की सूजन और ड्राई आई सिंड्रोम के लिए उपयोगी।
- कम रोशनी या रात की रोशनी में दृष्टि में सुधार करता है।
- आंखों के अंदर और आसपास रक्तवाहिकाओं में रक्तके प्रवाह में सुधार होता है।

डोज : सोते टाइम आखो में दो बूंद डालें।

आई पावर



माउथ अल्सर ड्रॉप

मुख्य घटक : ईलाइत्ना, मेअजिंदा रस, अधातोडा वासीका, कुमीहुम ।

- मुंह के छाले, खाने पीने के दौरान मुंह में दर्द होना।
- मुंह में घाव लालीमा दिखाई पड़ना।

डोज : सुबह और शाम को दो बूंद मुँह में डालकर लार गिराए।

पंच तुलसी ड्रॉप

मुख्य घटक : अश्वगंधा, बाह्मी, टगर, मंडूकपर्णी, जौ, कुचला, तुलसी, पीपली, सोंठ ।

- तुलसी में एंटीऑक्सिडेंट के गुण होते हैं।
- सर्दी-खाँसी जुखाम में फायदेमंद।
- त्वचा यकृत और संयुक्तस्वास्थ्य के लिये लाभदायक।
- प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है।
- इसमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं।

डोज : एक गीलास गुन गुने पानी में दो से पाँच बूंद डाल कर पीए।



नियम एवं शर्तें

- अच्छे परिणाम पाने के लिए 3 से 6 महीने का कोर्स करे।
- तीखी, तली हुई और बेशन चीजें खाना कम करे।
- गर्म मसाले वाली चीज ना खाए।
- दिन मे 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीए।
- सुबह उठके गर्म पानी जरूर पीना शुरू करे।
- पेट भर के कभी भी खाना ना खाए।
- खाना खाने के बाद तुरंत ना सोये और तुरत पानी नही पीना है।
- खाने के 45 मिनट के बाद ही पानी पीना है।
- ये नियम अपने जीवन मे लाने से बहुत बढ़िया फायदा आपको हो सकता है।
- आपका जीवन आनंदमय खुशहाल हो सकता है।

BANK DETAILS



HDFC BANK

We understand your world

Bank Name : HDFC Bank

Account Name : ROCK POWER AYURVEDA

Account No. : 50200099079401

IFSC Code : HDFC0003893

Branch : Palanpur

ROCK POWER AYURVEDA

TID : 36101496



Scan & Pay

रॉक पावर आयुर्वेदा क्यों करना चाहिए

- छोटा जोइनिंग है और बहुत बड़ा पेआउट है।
- सिंगल प्रोडक्ट कोरियर होता है।
- डेली क्लोजिंग होता है ओर डेली पेमेन्ट मिलता है।
- सीगल लेग चलने पर पेआउट मिलता है।
- कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट वाले ओर बेस्ट कोलेटी के प्रोडक्ट मिलता है।
- आप मनपसंद प्रोडक्ट ले सकते हो।
- मिनिमम पेआउट 100 खाते में ले सकते हो।
- पावर लेग कॅरिफॉवर्ड मिलता है।
- कंपनी से 50% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है।

TERM & CONDITION

- Daily Closing Daily Payout.
- One Pan Card valid for One ID.
- Minimum Payout 100/-.
- Nominee Facility Available
- Left-Right Sponsor Compulsory Only Matching Income
- Repurchase Plan Monthly closing
- Compulsory Purchase 250 BV
- Self BV Count to weeker side and Both side
- Self BV Count for All Bonus
- TDS and Admin Charge Apply



अमीर को अमीर बनने के लिए बहोत रास्ते है
लेकिन गरीब को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है
- डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस



2nd Floor, Saiyam Complex,
Above La Pinoz Pizza, Nr. Galbakaka Circle,
Palanpur, Gujarat - 385001
Website : www.rockpower.in
Email : rockpowerayurveda@gmail.com

सफल जीवन बनाने का रास्ता